



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]
No. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1979/माघ 17, 1900
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1979/MAGHA 17, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ध्यान संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1979

का. आ. 75 (अ)/18 एक सी/आई डी आर ए/79.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 426 (असा.)/18 एक/आई डी आर ए/74 तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर (जिसमें इसमें पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम के सामायनिक एकता का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 एक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधिन 7 जुलाई, 1979 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिये ग्रहण कर लिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में अनुयुक्त उद्योग, अर्थात् सायन उद्योग के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 एक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह घोषित करती है कि इस आदेश के निम्नलिखित जाने

की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, व्यवस्थापनों, पंजादों, म्यादी आदेशों या अन्य लिखतों (उनमें भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हों), जिनमें कि उक्त औद्योगिक उपक्रम या वह कम्पनी जो ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखती है, पक्षकार है, अथवा जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं, का प्रवर्तन 7 जुलाई, 1979 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्राप्ति या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, साध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[फा. सं. 25(9)/72-सी. रु. सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1979

S.O. 75(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E)/18.AA/IDRA/74, dated the 8th July, 1974, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 7th July, 1979;

And, whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the Chemical industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before

the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period upto the 7th July, 1979 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 25/9/72-CUC]
P. C. NAYAK, Joint Secy.